

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य दिनांक 24.07.2021

थाना खुटार पुलिस ने नकब लगाकर चोरी करने की योजना बनाते हुए 02 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूटे हुए 02 मोबाइल, आलानकब, मोटरसाइकिल आदि बरामद।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में थाना खुटार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 23/07/2021 की रात्रि 23.45 बजे थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह के नेतृत्व में थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा सूचना मुखबिरी के आधार पर **पुरनपुर रोड पर आशीर्वाद पैलेस के आगे बाँए तरफ टीन शैड के पार दीवार के किनारे से डकैती/चोरी** की योजना बनाते हुये अभियुक्तगण 1. लाल शाह व 2. रोहित को 2 अदद आलानकब व 2 अदद प्लास्टिक की टार्च हरी व गुलाबी व एक मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स रंग हरा रजि0 न0 UP 27 AM 2946 चैचिस न0 MVLHAR258J9E00174 इंजन न0 HA11ENJ9E00107 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ:-

दौराने पूछताछ पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम दोनों लोग रात्रि के समय मकान /दुकान व किसी के खोखा में नकब लगाकर व ताला तोड़कर चोरी करते हैं तथा जो सामान मिलता है उसे बेचकर रुपया आपस में बराबर-2 बाट लेते हैं। आज भी हम दोनों मकान व दुकान में चोरी की योजना बना रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। हम लोग लोहे की छड़ों से आला नकब लगाते हैं तथा किसी के मकान का ताला भी तोड़ देते हैं। मोटरसाइकिल से चलने पर लोग शक नहीं करते हैं इसलिए हम लोग मोटर साइकिल का उपयोग चोरी करने में करते हैं।

उल्लेखनीय है कि दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे/ चोर हैं दोनों व्यक्तियों ने कुछ दिन पहले मैलानी थाना क्षेत्र व पूरनपुर थाना क्षेत्र से दो मोबाइल लूटे थे दोनों मोबाइलों को इनके परिजनों से प्राप्त कर लिया गया है। सर्विलांस के आधार पर मोबाइल मालिकों का पता लगाया जा रहा है। तथा संबन्धित थानों से भी पूछताछ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। दोनों अभियुक्तों ने यह भी बताया गया कि साहब हम दोनों लोगों ने मोबाइल लुटने में इसी मोटर साइकिल का प्रयोग किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. लाल शाह पुत्र बटेश्वर दयाल निवासी ग्राम पिपरिया भागवन्त थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
2. रोहित पुत्र अमरीक सिंह निवासी ग्राम पिपरिया भागवन्त थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद आलानकब
2. 02 अदद प्लास्टिक की टार्च हरी व गुलाबी
3. एक मोटर साइकिल हीरो HF डीलक्स रंग हरा रजि0 न0 UP 27 AM 2946
4. 02 अदद मोबाइल (लूटे हुए)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री रामायण सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुर
4. हे0का0 विजय प्रताप सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुर
5. हे0का0 देवेन्द्र कुमार थाना खुटार शाहजहाँपुर
6. हे0का0 शैलेन्द्र कुमार थाना खुटार शाहजहाँपुर
7. का0 भारत कुमार थाना खुटार शाहजहाँपुर